

## भिन्नों का घटाव (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$1\frac{1}{3} - \frac{6}{8} =$$

$$\frac{7}{8} - \frac{1}{8} =$$

$$\frac{6}{8} - \frac{3}{8} =$$

$$\frac{6}{9} - \frac{1}{9} =$$

$$\frac{6}{7} - \frac{5}{8} =$$


$$1\frac{1}{5} - \frac{3}{7} =$$

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{8} =$$

$$1\frac{1}{6} - \frac{3}{4} =$$

$$\frac{6}{7} - \frac{1}{4} =$$

$$1\frac{2}{4} - \frac{5}{9} =$$



## भिन्नों का घटाव (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$1\frac{1}{3} - \frac{6}{8} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{6}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{6}{9} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{5}{8} = \frac{13}{56}$$

$$1\frac{1}{5} - \frac{3}{7} = \frac{27}{35}$$

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{8} = \frac{19}{56}$$

$$1\frac{1}{6} - \frac{3}{4} = \frac{5}{12}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{1}{4} = \frac{17}{28}$$

$$1\frac{2}{4} - \frac{5}{9} = \frac{17}{18}$$